



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग—II खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART—II Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 476]
No. 476]

नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 17, 1979/कार्तिक 26, 1901
NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 17, 1979/KARTIKA 26, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 1979

मेट्रो रेलवे (निर्माण-कार्यों का निर्माण) अधिनियम 1978 की धारा 21(1)(क) के अंतर्गत अधिसूचना

का०आ० 731 (अ)—चूंकि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि कलकत्ता में मेट्रो रेलवे का निर्माण करने के लिए नीचे अनुसूची में यथावर्णित इमारतों में, जो मेट्रो संरक्षण से 10 मीटर से अधिक दूरी के भीतर हैं, नीचे अनुसूची में यथावर्णित परिवर्तन करना आवश्यक है, अतः धारा 21(1)(क) के अंतर्गत प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए एनबद्वारा यह निवेश दिया जाता है कि ऐसे मालिक/व्यक्ति जिनके पास नीचे अनुसूची में यथावर्णित इमारत का नियंत्रण हो, वे इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन महीने के भीतर ऐसी इमारत को गिरा दें अथवा उसमें नीचे अनुसूची में दिये गये व्योरे के अनुसार परिवर्तन कर दें।

इस संबंध में ऐसे मालिकों/व्यक्तियों जिनके पास इमारत का नियंत्रण हो, का ध्यान मेट्रो रेलवे (निर्माण कार्यों का निर्माण) अधिनियम, 1978 की धारा 22 की ओर भी आकृष्ट किया जाता है। इसके अधीन दिये गये निदेश का अनुपालन न होने पर मेट्रो रेलवे (निर्माण कार्यों का निर्माण) अधिनियम, 1978 के अंतर्गत बनाये गये नियमों के नियम 16 में दिये गये उपबंधों के साथ-साथ अधिनियम की धारा 36 के उपबंध भी लागू होंगे।

ऐसे मालिकों/व्यक्तियों, जिनके पास इमारत का नियंत्रण हो, के सूचनार्थ यह आगे और अधिसूचित किया जाता है कि मेट्रो रेलवे (निर्माण-कार्यों का निर्माण) अधिनियम, 1978 के अंतर्गत यथाविनिर्दिष्ट सशम प्राधिकारी का कार्यालय मैकनान मैकेन्जी बिल्डिंग, 16 स्ट्रेंड रोड, कलकत्ता-700001 की दूसरी मंजिल में स्थित है।

अनुसूची

कलकत्ता नगर निगम के रिकार्ड में यथा वर्ण इमारत परिसर संख्या	मालिकों या व्यक्तियों, जिनके इमारत में किये जाने वाले नियंत्रण में इमारत हो, का नाम और पता	अनुमानित आयाम तथा पोटिको का क्षेत्रफल	सम्बाई मीटर में चौड़ाई मीटर में क्षेत्रफल वर्ग मीटर में (अनुमानित)
66. मूपेन्न बसु एवेन्यू	श्री सत्य चरण पाल, सेक्रेटरी, ट्रस्ट हस्टेट ग्राफ श्री श्री मंगल चण्डी माता, 66, मूपेन्न बसु एवेन्यू, कलकत्ता-4	मूपेन्न बसु एवेन्यू के फुटपाथ को घेरने वाले इमारत के पोटिको को गिरा कर वहां से हटा दें।	7.95 4.35 34.582

[सं० 79/एम टी पी/सी/एल ए/25]

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 17th November, 1979

Notification Under Section 21(1)(a) Of Metro Railway (Construction of Works) Act, 1978

S. O. 731(E):—As the Central Government is of the opinion that for facilitating the construction of Metro Railway at Calcutta, it is necessary to make such alteration to the building as described in the schedule below which is within a distance not exceeding 10 metres from the Metro alignment, therefore, in exercise of the power conferred under section 21(1)(a), it is hereby directed that owners/persons having control over such building as described in the schedule below, do demolish or make such alterations as detailed in the schedule to such building within three months from date of publication of this notification.

Attention of the owners/persons having control over the building is also drawn to section 22 of the Metro Railway (Construction of Works) Act 1978, in this connection. Non-compliance to the direction as made here-under shall invite application of section 36 of the Act along with provisions as contained in Rule 16 of the RULES as framed under the Metro Railway (Construction of Works) Act 1978.

It is further notified for information of the owners/persons having control over the building, that the Competent Authority as prescribed under the Metro Railway (Construction of Works) Act 1978 has his office located at Second floor of the Mackinnon Mackenzie Building, 16, Strand Road, Calcutta-700001.

SCHEDULE

Building Premises Number as recorded in Calcutta Corporation Record	Name and address of owners or the persons having control over the Building	Direction for alteration to be done in the Building	Approximate dimensions and area of portico		
			Length in Metres	Breadth in Metres	Area in Sq. M. (Appx.)
66, Bhupendra Basu Avenue.	Sri Satya Charan Paul, Secretary, Trust Estate of Shri Sri Mangal Chandi Mata 66, Bhupendra Basu Avenue, Calcutta-4.	Dismantle and remove the portico portion of the Building covering the footpath of Bhupendra Basu Avenue.	7.95	4.35	34.582

[No. 79/MTP/C/LA/25]

का०भा० 732(अ):—चूंकि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि कलकत्ता में मेट्रो रेलवे का निर्माण करने के लिए नीचे अनुसूची में यथावर्णित इमारतों में जो मेट्रो संरक्षण से 10 मीटर से अधिक दूरी के भीतर है, नीचे अनुसूची में यथावर्णित परिवर्तन करना आवश्यक है, अतः धारा 21(1) (क) के अंतर्गत प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए एतद्वारा यह निवेश दिया जाता है कि ऐसे मालिक/व्यक्ति जिनके पास नीचे अनुसूची में यथावर्णित इमारत का नियंत्रण हो, वे इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन महीने के भीतर ऐसी इमारत को गिरा दें अथवा उसमें नीचे अनुसूची में दिए गये व्योरे के अनुसार परिवर्तन कर दें।

इस सम्बन्ध में ऐसे मालिक/व्यक्तियों, जिनके पास इमारत का नियंत्रण हो, का ध्यान मेट्रो रेलवे (निर्माण कार्यों का निर्माण) अधिनियम, 1978 की धारा 22 की ओर भी आकृष्ट किया जाता है। इसके अधीन दिये गये निवेश का अनुपालन न होने पर मेट्रो रेलवे (निर्माण कार्यों का निर्माण) अधिनियम, 1978 के अंतर्गत बनाये गये नियमों के नियम 16 में दिये गये उपबन्धों के साथ-साथ अधिनियम की धारा 36 के उपबन्ध भी लागू होंगे।

ऐसे मालिकों/व्यक्तियों, जिनके पास इमारत का नियंत्रण हो, के सूचनार्थ यह ध्यान भी अधिसूचित किया जाता है कि मेट्रो रेलवे (निर्माण-कार्यों का निर्माण) अधिनियम, 1978 के अंतर्गत यथाविनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी का कार्यालय मैकनॉन मैकेन्जी बिल्डिंग, 16 स्कण्ड रोड, कलकत्ता-700001 की दूसरी मंजिल में स्थित है।

अनुसूची

कलकत्ता नगर निगम के रिकार्ड में यथा दर्ज इमारत परिसर संख्या	मालिकों या व्यक्तियों जिनके नियंत्रण में इमारत हो, का नाम और पता	इमारत में किये जाने वाले परिवर्तन के लिए निवेश	अनुमानित आयाम तथा पोर्टिको का क्षेत्रफल		
			लम्बाई मीटर में	चौड़ाई मीटर में	क्षेत्रफल वर्ग-मीटर में (अनुमानित)
74 ए, भूपेन्द्र बसु एवेन्यू	श्री युधिष्ठिर मोहन शा, भूपेन्द्र बसु एवेन्यू के फुटपाथ 134 ए तथा 134 बी, को घेरने वाले इमारत के विवेकानन्द रोड, कलकत्ता-4	पोर्टिको वाले भाग को गिराकर वहाँ से हटा दें।	9.45	4.00	37.80

[79/एम टी पी/सी/एस ए/26]

S.O.732(E).—As the Central Government is of the opinion that for facilitating the construction of Metro Railway at Calcutta, it is necessary to make such alteration to the building as described in the schedule below which is within a distance not exceeding 10 metres from the Metro alignment, therefore, in exercise of the power conferred under section 21(1)(a), it is hereby directed that owners/persons having control over such building as described in the schedule below, do demolish or make such alterations as detailed in the schedule to such building within three months from date of publication of this notification.

Attention of the owners/persons having control over the building is also drawn to section 22 of the Metro Railway (Construction of Works) Act 1978, in this connection. Non-compliance of the direction as made here-under shall invite application of section 36 of the Act along with provisions as contained in Rule 16 of the RULES as framed under the Metro Railway (Construction of Works) Act 1978.

It is further notified for information of the owners/persons having control over the building, that the Competent Authority as prescribed under the Metro Railway (Construction of Works) Act 1978 has his office located at Second floor of the Mackinnon Mackenzie Building, 16 Strand Road, Calcutta- 700001.

SCHEDULE

Building Premises Number as recorded in Calcutta Corporation Record.	Name and address of owners or the persons having control over the Building.	Direction for alteration to be done in the Building.	Approximate dimensions and area of portico.		
			Length in Metres	Breadth in Metres	Area in Sq. M. (Appx.)
74A Bhupendra Basu Avenue	Sri Judhisthir Mohan Shaw, 134A, & 134B, Vivekananda Road, Calcutta - 4.	Dismantle and remove the portico portion of the building covering the footpath of Bhupendra Basu Avenue.	9.45	4.00	37.80

[79/MTP/C/LA/26]

का०घा० 733(घ).—चूंकि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि कलकत्ता में मेट्रो रेलवे का निर्माण करने के लिए नीचे अनुसूची में यथावर्णित इमारतों में, जो मेट्रो संरेखण से 10 मीटर से अधिक दूरी के भीतर हैं, नीचे अनुसूची में यथावर्णित परिवर्तन करना आवश्यक है, अतः धारा 21(1)(क) के अंतर्गत प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए एतद्वारा यह निदेश दिया जाता है कि ऐसे मालिक/व्यक्ति जिनके पास नीचे अनुसूची में यथावर्णित इमारत का नियंत्रण हो, वे इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन महीने के भीतर ऐसी इमारत को गिरा दें अथवा उनमें नीचे अनुसूची में दिये गये व्योरे के अनुसार परिवर्तन कर दें।

इस सम्बन्ध में ऐसे मालिकों/व्यक्तियों, जिनके पास इमारत का नियंत्रण हो, का ध्यान मेट्रो रेलवे (निर्माण-कार्यों का निर्माण) अधिनियम, 1978 की धारा 22 की ओर भी आकृष्ट किया जाता है। इसके अधीन दिये गये निदेश का अनुपालन न होने पर मेट्रो रेलवे (निर्माण-कार्यों का निर्माण) अधिनियम 1978 के अंतर्गत बनाये गये नियमों के नियम 16 में दिये गये उपबंधों के साथ-साथ अधिनियम की धारा 36 के उपबंध भी लागू होंगे।

ऐसे मालिकों/व्यक्तियों, जिनके पास इमारत का नियंत्रण हो, के सूचनार्थ यह आगे और अधिसूचित किया जाता है कि मेट्रो रेलवे (निर्माण-कार्यों का निर्माण) अधिनियम, 1978 के अंतर्गत यथाविनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी का कार्यालय मैकिनन मैकेन्जी बिल्डिंग, 16 स्ट्रैंड रोड, कलकत्ता-700001 की दूसरी मंजिल में स्थित है।

अनुसूची

कलकत्ता नगर निगम के रिकार्ड में यथा वर्णित इमारत परिसर संख्या	मालिकों या व्यक्तियों, जिनके नियंत्रण में इमारत हो, का नाम और पता	इमारत में किये जाने वाले परिवर्तन के लिए निदेश	अनुमानित आयाम तथा पोर्टिको का क्षेत्रफल		
			लम्बाई मीटर में	चौड़ाई मीटर में	क्षेत्रफल वर्ग-मीटर में (अनुमानित)
44, जतीन्द्र मोहन एवेन्यू	श्री ज़िमानलाल भारतीया, 244, चितरंजन एवेन्यू, कलकत्ता-5 श्री गोबिन्द दास मट्टेर, 1 ए, नन्द मस्जिद लेन कलकत्ता श्री बंशीधर बाजोरिया, 117, हरीसन रोड, कलकत्ता बसन्ती देवी ज़िमान लाल भारतीया प्रैक्टिसल ट्रस्ट के ट्रस्टी।	जतीन्द्र मोहन के फुटपाथ को घेरने वाले इमारत के पोर्टिको वाले भाग को गिरा कर वहां से हटा दें।	11.80	3.85	45.430

[सं० 79/एम टी पी/सी/एल ए/27]

S.O. 733 (E).—As the Central Government is of the opinion that for facilitating the Construction of Metro Railway at Calcutta, it is necessary to make such alteration to the building as described in the schedule below which is within a distance not exceeding 10 metres from the Metro alignment, therefore, in exercise of the power conferred under section 21 (1) (a), it is hereby directed that owners/persons having control over such building as described in the schedule below, do demolish or make such alterations as detailed in the schedule to such building within three months from date of publication of this notification.

Attention of the owners/persons having control over the building is also drawn to section 22 of the Metro Railway (Construction of Works) Act 1978, in this connection. Non-compliance to the direction as made here-under shall invite application of section 36 of the Act along with provisions as contained in Rule 16 of the RULES as framed under the Metro Railway (Construction of Works) Act 1978.

It is further notified for information of the owners/persons having control over the building, that the Competent Authority as prescribed under the Metro Railway (Construction of Works) Act 1978 has his office located at Second floor of the Mackinnon Mackenzie Building, 16, Strand Road, Calcutta- 700001.

SCHEDULE

Building Premises Number as recorded in Calcutta Corporation Record.	Name and address of owners or the persons having control over the Building.	Direction for alteration to be done in the Building.	Approximate dimensions and area of portico.		
			Length in Metres	Breadth in Metres	Area in Sq. M. (Appx.)
44, Jatindra Mohan Avenue	Sri Chimanlal Bhartia, Sri Bajinath Bhartia, 244, Chitta Ranjan Avenue, Calcutta-5. Sri Gobinddas Bhattar, 1A, Nanda Mallik Lane, Calcutta. Sri Banshidhar Bajoria, 117, Harrison Road, Calcutta, Trustees of Basanti Devi Chimanlal Bhartia Charitable Trust.	Dismantle and remove the portico portion of the Building covering footpath of Jatindra Mohan Avenue.	11.80	3.85	45.430

[No. 79/ M T P /C /LA/ 27]

का० प्रा० 734(अ).—चूंकि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि कलकत्ता में मेट्रो रेलवे का निर्माण करने के लिए नीचे अनुसूची में यथावर्णित इमारतों में, जो मेट्रो संरेखण से 10 मीटर से अधिक दूरी के भीतर है, नीचे अनुसूची में यथावर्णित परिवर्तन करना आवश्यक है, अतः धारा 21(1)(क) के अंतर्गत प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए एतद्वारा यह निदेश दिया जाता है कि ऐसे मालिक/व्यक्ति जिनके पास नीचे अनुसूची में यथावर्णित इमारत का नियंत्रण हो, वे इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन महीने के भीतर ऐसी इमारत को गिरा दें अथवा उसमें नीचे अनुसूची में दिये गये व्योरे के अनुसार परिवर्तन कर दें।

इस सम्बन्ध में ऐसे मालिकों/व्यक्तियों, जिनके पास इमारत का नियंत्रण हो, का ध्यान मेट्रो रेलवे (निर्माण-कार्यों का निर्माण) अधिनियम, 1978 की धारा 22 की धोर भी आकृष्ट किया जाता है। इसके अधीन दिये गये निदेश का अनुपालन न होने पर मेट्रो रेलवे (निर्माण-कार्यों का निर्माण) अधिनियम 1978 के अंतर्गत बनाये गये नियमों के नियम 16 में दिये गए उपबंधों के साथ-साथ अधिनियम की धारा 36 के उपबंध भी लागू होंगे।

ऐसे मालिकों/व्यक्तियों, जिनके पास इमारत का नियंत्रण हो, के सूचनार्थ यह आगे धोर अधिसूचित किया जाता है कि मेट्रो रेलवे (निर्माण-कार्यों का निर्माण) अधिनियम, 1978 के अंतर्गत यथाविनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी का कार्यालय मैकनान मैकेन्जी बिल्डिंग, 16 स्ट्रैंड रोड, कलकत्ता-700001 की दूसरी मंजिल में स्थित है।

अनुसूची

कलकत्ता नगर निगम के रिकार्ड में यथा वर्णित इमारत परिसर संख्या	मालिकों या व्यक्तियों, जिनके नियंत्रण में इमारत हो, का नाम और पता	इमारत में किये जाने वाले परिवर्तन के लिए निदेश	अनुमानित आयाम तथा पोर्टिको का क्षेत्रफल लम्बाई मीटर में चौड़ाई मीटर में क्षेत्रफल वर्ग मीटर में (अनुमानित)
54, जतीन्द्र मोहन एवेन्यू	श्री प्रेमलोक घटक, 54, जतीन्द्र मोहन एवेन्यू, कलकत्ता-5	जतीन्द्र मोहन एवेन्यू के फुटपाथ को घेरने वाले इमारत के पोर्टिको वाले भाग को गिरा कर वहाँ से हटा दें।	8.00 4.25 34.00

[सं० 79/एम टी पी/सी/एल ए/28]

S. O. 734(E).—As the Central Government is of the opinion that for facilitating the construction of metro railway at Calcutta, it is necessary to make such alteration to the building as described in the schedule below which is within a distance not exceeding 10 metres from the Metro alignment, therefore, in exercise of the powers conferred under section 21(1) (a), it is hereby directed that owners/ persons having control over such building as described in the schedule below, do demolish or make such alterations as detailed in the schedule to such building within three months from date of publication of this notification.

Attention of the owners/persons having control over the building is also drawn to section 22 of the Metro Railway (Construction of Works) Act, 1978, in this connection. Non-compliance to the direction as made here-under shall invite application of section 36 of the Act, along with provisions as contained in Rule 16 of the RULES as framed under the Metro Railway (Construction of Works) Act, 1978.

It is further notified for information of the owners/persons having control over the building, that the Competent authority as prescribed under the Metro Railway (Construction of Works) Act, 1978 has his office located at Second floor of the Mackinnon Mackenzie Building, 16, Strand Road, Calcutta-700001.

SCHEDULE

Building Premises Number as recorded in Calcutta Corporation Record	Name and address of owners or the persons having control over the Building	Direction for alteration to be done in the Building	Approximate dimensions and area of portico		
			Length in Metres	Breadth in Metres	Area in Sq. M. (Appx.)
54, Jatindra Mohan Avenue.	Sri Premtosh Ghatak, 54, Jatindra Mohan Avenue, Calcutta-5.	Dismantle and remove the portico portion of the Building covering the footpath of Jatindra Mohan Avenue.	8.00	4.25	34.000

[No. 79/MTP/C/LA/28]

का०धा० 735(अ).—चूंकि केन्द्रीय सरकार को यह राय है कि कलकत्ता में मेट्रो रेलवे का निर्माण करने के लिए नीचे अनुसूची में यथावर्णित इमारतों में, जो मेट्रो संरेखण से 10 मीटर से अधिक दूरी के भीतर हैं, नीचे अनुसूची में यथावर्णित परिवर्तन करना आवश्यक है, अतः धारा 21(1)(क) के अंतर्गत प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए एतद्वारा यह निदेश दिया जाता है कि ऐसे मालिक/व्यक्ति जिनके पास नीचे अनुसूची में यथावर्णित इमारत का नियंत्रण हो, वे इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन महीने के भीतर ऐसी इमारत को गिरा दें अथवा उसमें नीचे अनुसूची में दिये गये व्योरे के अनुसार परिवर्तन कर दें।

इस सम्बन्ध में ऐसे मालिकों/व्यक्तियों, जिनके पास इमारत का नियंत्रण हो, का ध्यान मेट्रो रेलवे (निर्माण-कार्यों का निर्माण) अधिनियम, 1978 की धारा 22 की धोर भी धाकृष्ट किया जाता है। इसके अधीन दिये गये निदेश का अनुपालन न होने पर मेट्रो रेलवे (निर्माण-कार्यों का निर्माण) अधिनियम, 1978 के अंतर्गत बनाये गये नियमों के नियम 16 में दिये गये उपबंधों के साथ-साथ अधिनियम की धारा 36 के उपबंध भी लागू होंगे।

ऐसे मालिकों/व्यक्तियों, जिनके पास इमारत का नियंत्रण हो, के सूचनार्थ यह आगे और अधिसूचित किया जाता है कि मेट्रो रेलवे (निर्माण-कार्यों का निर्माण) अधिनियम, 1978 के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी का कार्यालय मैकिनन मैकेन्जी बिल्डिंग, 16, स्ट्रैंड रोड, कलकत्ता-700001 की दूसरी मंजिल में स्थित है।

अनुसूची

कलकत्ता नगर निगम के रिकार्ड में यथा दर्ज इमारत परिसर संख्या	मालिकों या व्यक्तियों, जिनके नाम और पता	इमारत में किये जाने वाले परिवर्तन के लिए निवेश	अनुमानित आयाम तथा पोटिको का क्षेत्रफल		
			लम्बाई मीटर में	चौड़ाई मीटर में	क्षेत्रफल वर्ग मीटर में (अनुमानित)
63, जतीन्द्र मोहन एवेन्यू	श्रीमती अंघी देवी, 63, जतीन्द्र मोहन एवेन्यू, कलकत्ता-5	जतीन्द्र मोहन एवेन्यू, कलकत्ता-5 के फुटपाथ को घेरने वाले इमारत के पोटिको वाले भाग को गिरा कर वहां से हटा दें।	10.20	3.90	39.780

[सं० 79/एम टी पी/सी/एल ए/29]

S.O. 735(E).—As the Central Government is of the opinion that for facilitating the construction of Metro Railway at Calcutta, it is necessary to make such alteration to the building as described in the Schedule below which is within a distance not exceeding 10 metres from the Metro Alignment, therefore, in exercise of the power conferred under section 21(1)(a), it is hereby directed that owners/persons having control over such building as described in the Schedule below, do demolish or make such alterations as detailed in the Schedule to such building within three months from date of publication of this notification.

Attention of the owners/persons having control over the building is also drawn to section 22 of the Metro Railway (Construction of Works) Act, 1978, in this connection. Non-compliance to the direction as made here-under shall invite application of section 36 of the Act along with provisions as contained in Rule 16 of the RULES as framed under the Metro Railway (Construction of Works) Act, 1978.

It is further notified for information of the owners/persons having control over the building, that the Competent Authority as prescribed under the Metro Railway (Construction of Works) Act, 1978 has his office located at Second floor of the Mackinnon Mackenzie Building, 16, Strand Road, Calcutta-700001.

SCHEDULE

Building Premises number as recorded in Calcutta Corporation Record	Name and address of owners or the persons having control over the Building	Direction for alteration to be done in the Building	Approximate dimensions and area of portico		
			Length in Metres	Breadth in Metres	Area in Sq.M. (Appx.)
63, Jatindra Mohan Avenue	Smt. Anchi Devi, 63, Jatindra Mohan Avenue, Calcutta-5.	Dismantle and remove the portico portion of the Building covering the footpath of Jatindra Mohan Avenue, Calcutta-5	10.20	3.90	39.780

[No. 79/MTP/C/LA/29]

का० प्रा० 736(अ).—चूँकि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि कलकत्ता में मेट्रो रेलवे का निर्माण करने के लिए नीचे अनुसूची में यथावर्णित इमारतों में, जो मेट्रो संरेखण से 10 मीटर से अधिक दूरी के भीतर हैं, नीचे अनुसूची में यथावर्णित परिवर्तन करना आवश्यक है, अतः धारा 21(1) (क) के अंतर्गत प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए एन० द्वारा यह निर्देश दिया जाता है कि ऐसे मालिक/व्यक्ति जिनके पास नीचे अनुसूची में यथावर्णित इमारत का नियंत्रण हो, वे इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन महीने के भीतर ऐसी इमारत का गिरा दें प्रथवा उसमें नीचे अनुसूची में दिये गए व्योरे के अनुसार परिवर्तन कर दें।

इस सम्बन्ध में ऐसे मालिकों/व्यक्तियों, जिनके पास इमारत का नियंत्रण हो, का ध्यान मेट्रो रेलवे (निर्माण-कार्यों का निर्माण) अधिनियम, 1978 की धारा 22 की श्रृंखला में प्राकृत किया जाता है। इसके अन्तर्गत दिये गये निर्देश का अनुपालन न होने पर मेट्रो रेलवे (निर्माण-कार्यों का निर्माण) अधिनियम, 1978 के अंतर्गत बनाये गये नियमों के नियम 16 में दिये गए उपबंधों के साथ-साथ अधिनियम की धारा 36 के उपबंध भी लागू होंगे।

ऐसे मालिकों/व्यक्तियों, जिनके पास इमारत का नियंत्रण हो, के सूचनार्थ यह प्रागे और अधिसूचना किया जाता है कि मेट्रो रेलवे (निर्माण-कार्यों का निर्माण) अधिनियम, 1978 के अंतर्गत यथाविनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी का कार्यालय मैकिन्नामैकेंजी बिल्डिंग, 16 स्ट्रैंड रोड, कलकत्ता-700001 की दूसरी मंजिल में स्थित है।

अनुसूची

कलकत्ता नगर निगम के रिकार्ड, में यथा दर्ज इमारत परिसर संख्या	मालिकों या व्यक्तियों, जिनके नियंत्रण में इमारत हो, का नाम और पता	इमारत में किये जाने वाले परिवर्तन के लिये निर्देश	अनुमानित आयाम तथा पोर्टिको का क्षेत्रफल		
			लम्बाई मीटर में	चौड़ाई मीटर में	क्षेत्रफल वर्ग मीटर में (अनुमानित)
80 ए, भूपेन्द्र बसु एवेन्यू	श्रीमती गिरिजाया नियोगी, भाई श्री एन० प्रार० नियोगी 80ए, भूपेन्द्र बसु एवेन्यू, कलकत्ता-4	भूपेन्द्र बसु एवेन्यू के फुटपाथ को घेरने वाले इमारत के पोर्टिको वाले भाग को गिराकर वहाँ से हटा दें।	6.50	4.25	27.625

[सं० 79/ए एम टी पी/सी/एल ए/30]

S. O. 736(E):—As the Central Government is of the opinion that for facilitating the construction of Metro Railway at Calcutta, it is necessary to make such alteration to the building as described in the schedule below which is within a distance not exceeding 10 metres from the Metro alignment, therefore, in exercise of the power conferred under section 21(1)(a), it is hereby directed that owners/- persons having control over such building as described in the schedule below, do demolish or make such alterations as detailed in the schedule to such building within three months from date of publication of this notification.

Attention of the owners/persons having control over the building is also drawn to section 22 of the Metro Railway (Construction of Works) Act, 1978, in this connection. Non-compliance to the direction as made here-under shall invite application of section 36 of the Act along with provisions as contained in Rule 16 of the RULES as framed under the Metro Railway (Construction of Works) Act, 1978.

It is further notified for information of the owners/persons having control over the building that the Competent Authority as prescribed under the Metro Railway (Construction of Works) Act, 1978, has his office located at Second floor of the Mackinnon Mackenzie Building, 16, Strand Road Calcutta-700001.

SCHEDULE

Building Premises Number as recorded in Calcutta Corporation Record	Name and address of owners or the persons having control over the Building	Direction or alteration to be done in the Building	Approximate dimensions and area of portico		
			Length in Metres	Breadth in Metres	Area in Sq. M. (Appx.)
80A Bhupendra Basu Avenue.	Smt. Girijaya Neogy, C/o Sri N.R. Neogy, 80A, Bhupendra Basu Avenue, Calcutta-4	Dismantle and remove the portico portion of the Building covering the footpath of Bhupendra Basu Avenue.	6.50	4.25	27.625

[No. 79/MTP/C/LA/30]

